

थाना सादाबाद पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय पशु चोर गैंग के सक्रिय 06 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस एवं चोरी की भैंसे व एक गाडी टाटा पिकअप बरामद-

दिनांक 07/08.01.2021 की देर रात्रि पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सादाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय पशु चोर गैंग के सक्रिय 06 सदस्यों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से चोरी की 02 भैंसे, 04 अवैध तमन्चा, 01 पौनिया, 10 कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर व, 02 कारतूस जिन्दा व एक खोखा 12 बोर व एक गाडी टाटा पिकअप न.-UP 86 T 5963 बरामद हुई है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरोह के सदस्यों से की गई पूछताछ में जानकारी हुई है कि गिरोह आस पास के जनपदों में पशु चोरी की घटना कारित करता है। गिरोह घटना कारित करने से पूर्व पिकअप गाडी से पशुचोरी किये जाने वाले क्षेत्र एवं उसके आस पास रैकी करता है। तत्पश्चात पिकअप गाडी को दूर खडी करके पशुओं को चोरी कर पिकअप गाडी में भरकर भाग जाते हैं तथा दूसरे जनपद में जाकर बेच देते हैं।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

- 1-रमजान पुत्र रहीस निवासी नदरई थाना कोतवाली कासंगज जनपद कासंगज
- 2-खलील पुत्र पप्पू निवासी - नदरई थाना कोतवाली कासंगज जनपद कासंगज
- 3-गुड्डू पुत्र रतन सिंह ठाकुर निवासी-नगला स्वरूप थाना बरहन जनपद आगरा
- 4-तिलक सिंह पुत्र गोपीराम निवासी-नगला गिरधारी थाना बरहन जनपद आगरा
- 5- मुकेश पुत्र अमर सिंह निवासी-कोसमा थाना जलेसर जनपद एटा
- 6- साहिब पुत्र इरफान निवासी-डाक खाने वाली गली कस्बा व थाना सादाबाद जनपद हाथरस

**अपराधिक इतिहास गुड्डू उपरोक्त-**

1. मु0अ0स0-93/11 धारा-411/414 भा.द.वि. व 41/102 CRPC थाना बरहन आगरा
2. मु0अ0स0-146/10 धारा-380/458 भा.द.वि.थाना बरहन आगरा

**अपराधिक इतिहास तिलक सिंह उपरोक्त-**

1. मु0अ0स0-3/16 धारा-379 भा.द.वि. थाना बरहन आगरा
2. मु0अ0स0-168/20 धारा-3/25 ए एक्ट थाना बरहन आगरा
3. मु0अ0स0-224/20 धारा-4/25 ए एक्ट थाना बरहन आगरा
4. मु0अ0स0-93/11 धारा-411/414 भा.द.वि. व 41/102 CRPC थानाबरहन आगरा
5. मु0अ0स0-146/10 धारा- 380/458 भा.द.वि.थाना बरहन आगरा

**अपराधिक इतिहास मुकेश उपरोक्त-**

1. मु0अ0स0-60/19 धारा-3/25 ए एक्ट थाना बरहन आगरा
2. मु0अ0स0-61/19 धारा-420 भा.द.वि.व 60/72 आब.अधि.थाना बरहन आगरा

**बरामदगी का विवरण:-**

1. दो भैंसे (चोरी की हुई)
2. 04 अवैध तमन्चा 315 बोर
3. 01 अवैध पौनिया 12 बोर
4. 10 कारतूस 315 बोर जिन्दा
5. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
6. 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर
7. 01 खोखा कारतूस 12 बोर
8. 01 टाटा पिकअप न.-UP 86 T 5963 (चोरी में प्रयुक्त)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1.ब.उ.नि.श्री अनिल कुमार थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 2.उ0नि0 रामपाल सिंह थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 3.उ.नि. मुन्नालाल थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

है0का0 291 दशरथ सिंह,का0 196 उमां शंकर,का0 259 पंकज कुमार,का0 503 धर्मेन्द्र कुमार,का0 500 अंकित कुमार,का0 261 गौरव कुमार, का0 241 अंशू यादव थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

